



41739 - क्या जिस व्यक्ति पर लंबी अवधि का ऋण है तो वह हज्ज करेगा ?

प्रश्न

मैं यह बात जानता हूँ कि जिस व्यक्ति के ऊपर ऋण है उसके ऊपर हज्ज अनिवार्य नहीं है, तो क्या यह लंबी अवधि के ऋण पर भी लागू होता है ? कुछ लोगों पर रियलस्टेट (अचल संपत्ति) बैंक का ऋण होता है जिसको चुकाने में उसे पूरा जीवन लग जाता है, तो क्या उसके ऊपर हज्ज अनिवार्य है ?

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

“यदि ऋण के भुगतान करने का समय आ गया है तो उसे हज्ज पर प्राथमिकता दी जायेगी, क्योंकि वह हज्ज के अनिवार्य होने से पहले है, अतः वह ऋण का भुगतान करेगा और हज्ज करेगा, और यदि उसके पास ऋण को अदा करने के बाद कोई चीज न बचे तो वह प्रतीक्षा करेगा यहाँ तक कि अल्लाह तआला उसे धनवान कर दे। और यदि ऋण नियमानुसार एक निर्धारित अवधि के बाद भुगतान करना है तो यदि उसे अपने ऊपर भरोसा है कि जब ऋण भुगतान करने का समय आयेगा तो वह उसे भुगतान कर सकता है, तो यहाँ पर ऋण हज्ज के अनिवार्य होने को नहीं रोकता है, चाहे लेनदार ने उसे अनुमति दी हो या न दी हो, और यदि वह उसके भुगतान करने की क्षमता की गारंटी नहीं रखता है तो वह इंतज़ार करेगा यहाँ तक कि उसकी अवधि आ जाए।

इस आधार पर हम कहते हैं : जिस आदमी के ऊपर अचल संपत्ति विकास बैंक का ऋण है यदि वह अपने बारे में जानता है कि जब उसके भुगतान का समय आयेगा तो वह उसे भुगतान कर देगा तो उसके ऊपर हज्ज करना अनिवार्य है, भले ही उसके ऊपर ऋण अनिवार्य है।”

“फतावा इब्न उसैमीन” (21/96).

तथा प्रश्न संख्या (36852) का उत्तर देखें।